

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 56]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 जनवरी 2014—माघ 10, शक 1935

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी, 2014 (माघ 10, 1935)

क्र. 1690-वि.स.-विधान-2014.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 24 जनवरी, 2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्द्वारा, इस राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 3 मार्च, 2014 को पूर्वाह्न 10:30 बजे भोपाल में समवेत् होने के लिये आमंत्रित करता हूँ.

भोपाल :
दिनांक 24 जनवरी, 2014

राम नरेश यादव
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.”

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.